

कीटनाशी औषधियों का आयात

317. डा० रामजी सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मई, 1979 के बिल्टज (अंग्रेजी) में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जो अनुसन्धान तथा विकास विभाग के बारे में है और जिस में बताया गया है कि अनुसन्धान कार्य के बावजूद करोड़ों ६० की कीटनाशी औषधियों का आयात करना पड़ता है ;

(ख) क्या कीटनाशी उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में है ,

(ग) क्या सरकार के पास अनुसन्धान तथा विकास विभाग को अधिक उद्येयपूर्ण तथा कार्य-कुशल बनाने की कोई योजना है , और

(घ) इस विभाग पर कुल कितना व्यय हुआ है और इस विभाग का कार्य उभ पर हुए व्यय की तुलना में कितना मन्तोपजनक है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती मन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । पेट्रोसाइड्स उद्योग में विदेशी कंपनियों की भूमिका पर्याप्त नहीं है ।

(ग) देश में अनुसन्धान संस्थाओं और प्रयोगशालाओं ने निट्राफेन, इन्डोसल्फान, डालापोन, पैन्थोएट, डिकोफोल, धादि जैसे पेट्रोसाइड्स के निर्माण के लिए अनेक प्रक्रियाओं का विकास किया है। इन प्रक्रियाओं के आधार पर कुछ मर्दों का उत्पादन भी आरम्भ हो गया है। प्रयोगशालाओं ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण पेट्रोसाइड्स जैसे डिमेथाएट, कारबरिल, विश्वलफोस, मोनाक्रोटोफोस, डाइजेनोन धादि के लिए भी प्रक्रिया का विकास किया है और इन उत्पादों का गीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की आशा है।

(घ) अनुसन्धान और विकास का कोई अलग विभाग नहीं है।

1968 के बाद बिजली की बरों में वृद्धि

318. श्री राय नरेश कुमावाहा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में और इस समय प्रति यूनिट बिजली की दर क्या है ; और

(ख) कितनी बार ये दरें बढ़ाई गईं थी और प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई थी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन (क) और (ख)। विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के संबंध में, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए, इन बोर्डों की स्थापना की तारीख से लेकर 31 मार्च, 1979 तक की अवधि की औसत दरों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित "एवरेज इलेक्ट्रिक रेट्स एण्ड ड्यूटीज इन इन्डिया" "(भारत में बिजली की औसत दर तथा शुल्क)—अगस्त, 1976 का संस्करण (31 मार्च, 1979 तक यथा सशोधित)" नामक प्रकाशम में दी गई है। समय-समय पर प्रत्येक श्रेणी में हुई वृद्धि को प्रतिशतता तथा वृद्धि का बारबाना भी बोर्ड-वार उममें दर्शाई गई है। उपर्युक्त प्रकाशन की प्रतियां समद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

Manipur Regiment in Army

319. SHRI N. TOMBI SINGH: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering having a Manipur Regiment in the Indian Army;

(b) if so, when and other details; and

(c) whether Government are aware that the people of Manipur are keen to see such a step taken by the Government of India?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

Utilisation of artists in song and Drama Division

320. SHRI N. TOMBI SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a large number of artists in the Song and Drama Division in the Headquarters as well as in the Regional Units have not been fully utilised during the last few years;

(b) if so, what steps are being taken to improve the situation;